

फॉर्म एन एल - 2-बी -पी एल  
ईसीजीसी लिमिटेड

पंजीकरण सं . 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर ,2002

30 सितंबर 2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि खाता (समिक्षित)

(राशि लाख रु में )

|   | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                              | अनुसूची<br>संदर्भ<br>फॉर्म सं | सितंबर 2021 की<br>तिमाही हेतु      | सितंबर 2021 की<br>तिमाही तक         | सितंबर 2020 की<br>तिमाही हेतु        | सितंबर 2020 की<br>तिमाही तक           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | परिचालन लाभ / ( हानि )<br>(क) अग्नि बीमा<br>(ख) मरीन बीमा<br>(ग) विविध बीमा                                                                                                                                                                                                        | एन एल -1                      | -<br>-<br>18,06.81                 | -<br>-<br>(55,98.92)                | -<br>-<br>(88,40.91)                 | -<br>-<br>(140,42.48)                 |
| 2 | निवेशों से अर्जित आय<br>(क) ब्याज , लाभांश एवं किराया - सकल<br>(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ<br>(ग) निवेशों की बिक्री पर हानि<br>(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट                                                                                                             |                               | 108,49.64<br>21,11.05<br>-         | 208,15.44<br>36,38.32<br>-          | 91,19.60<br>7,67.83<br>-             | 181,00.95<br>13,41.67<br>-            |
| 3 | अन्य आय<br>(क) एन ई आई ए आय<br>(ख) किराया एवं अन्य प्राप्तियाँ<br>(ग) अन्य ब्याज आय<br>(घ) अन्य विविध आय एवं फ्रेक्ट्रिंग आय                                                                                                                                                       |                               | 68.43<br>4.09<br>33.60<br>2,40.83  | 1,34.36<br>8.14<br>67.95<br>2,47.77 | 63.73<br>4.76<br>36.72<br>0.47       | 1,27.97<br>9.10<br>74.23<br>0.47      |
|   | <b>कुल (क)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>151,14.45</b>                   | <b>193,13.06</b>                    | <b>11,52.20</b>                      | <b>56,11.91</b>                       |
| 4 | प्रावधान ( कराधान के अतिरिक्त )<br>(क) निवेश मूल्य में कमी हेतु<br>(ख) अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान                                                                                                                                                                                   |                               | -<br>0.33                          | -<br>0.33                           | -<br>-                               | -<br>-                                |
| 5 | अन्य व्यय<br>(क) बीमा कारोबार के व्यतिरेक अन्य व्यय<br>(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय<br>(ग) अन्य<br>- विविध व्यय                                                                                                                                                       |                               | 38.26<br>11.26                     | 94.41<br>11.26                      | 26.00<br>-                           | 27.95<br>(0.01)                       |
|   | <b>कुल (ख)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>49.85</b>                       | <b>1,06.00</b>                      | <b>26.00</b>                         | <b>27.94</b>                          |
| 6 | <b>कर पूर्व लाभ / ( हानि ) ( क-ख)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>150,64.60</b>                   | <b>192,07.06</b>                    | <b>11,26.20</b>                      | <b>55,83.97</b>                       |
| 7 | घटाएँ :<br>(क) कराधान हेतु प्रावधान<br>- आस्थगित कर<br>- चालू कर<br><br>(ख) पूर्व अवधि समायोजन<br>(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्षों में                                                                                                                                                |                               | (1,15.63)<br>12,25.00<br>3.78<br>- | (1,15.63)<br>15,00.00<br>7.86<br>-  | (1,14.57)<br>2,79.00<br>2,41.57<br>- | (1,14.57)<br>14,00.00<br>2,41.57<br>- |
| 8 | <b>कर पश्चात लाभ / ( हानि )</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | <b>139,51.45</b>                   | <b>178,14.83</b>                    | <b>7,20.20</b>                       | <b>40,56.97</b>                       |
| 9 | <b>विनियोग</b><br>(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अन्तरिम लाभांश<br>(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश<br>(ग) फ्रेक्ट्रिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधियों में अंतरण<br>(घ) सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण<br>पिछले वर्ष आगे लाया गया लाभ / हानि<br>तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष |                               | -<br>-<br>-<br>-<br>139,51.45      | -<br>-<br>-<br>-<br>178,14.83       | -<br>-<br>-<br>-<br>7,20.20          | -<br>-<br>-<br>-<br>40,56.97          |

अपलोड करने की तारीख : 26/11/2021

संस्करण:1.1

<https://www.ecgc.in>